



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

11 कार्तिक 1934 (श०)  
(सं० पटना 596) पटना, शुक्रवार, 2 नवम्बर 2012

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

-----  
अधिसूचना

1 नवम्बर 2012

सं० नि०प्रा०/नि०-1-16/2012/9744—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का पत्रांक-9016 दिनांक 26.06.2012 द्वारा अन्य सहित नगर पंचायत पैक्स गगन पसनौली के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची की तैयारी का निदेश दिया गया था, जिसके अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 25.07.2012 को किया जाना निर्धारित था, किन्तु अपरिहार्य कारणों से नगर पंचायत पैक्स गगन पसनौली के मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो सका। फलतः नगर पंचायत पैक्स गगन पसनौली के मतदाता सूची के प्रकाशन के निमित्त प्राधिकार के पत्रांक-9643 दिनांक 15.10.2012 द्वारा कार्यक्रम सूचित किया जा चुका है।

2. राज्य निर्वाचन प्राधिकार नगर पंचायत पैक्स गगन पसनौली का चुनाव निम्न कार्यक्रम के अनुसार नियत करता है तथा संबंधित पैक्स के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन पैक्स के पदधारकों को निर्वाचित करें :-

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	06.11.2012 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्र समर्पित किये जाने की अवधि	08.11.2012 (गुरुवार)
3.	संवीक्षा की तिथि	10.11.2012 (शनिवार)
4.	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	16.11.2012 (शुक्रवार)
5.	मतदान, अगर आवश्यक हो	23.11.2012 (शुक्रवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
6.	मतगणना	23.11.2012 मतदान समाप्ति के पश्चात्

3. प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), महाराजगंज, सीवान प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 06.11.2012 को प्राधिकार के पत्रांक-343 दिनांक 12.05.2009 के साथ संलग्न प्रपत्र-1 में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,

एन0 एस0 माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 596-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>